

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 मार्च 2017—चैत्र 10, शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2017

क्र. ई-5-964-आयएस-लीव-एक-5-1.—(1) श्री ऋषि गर्ग, आयएस., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ को दिनांक 6 से 17 मार्च 2017 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 एवं 18 मार्च 2017 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री ऋषि गर्ग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री ऋषि गर्ग को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ऋषि गर्ग अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2017

क्र. एफ 1(ए)11-2000-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अंशुमान यादव, भा.पु.से., पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 1 फरवरी से 30 अप्रैल, 2017 तक, नवासी दिवस का अर्जित अवकाश, स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अंशुमान यादव, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अंशुमान यादव, भा.पु.से., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंशुमान यादव, भा.पु.से., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2017

क्र. एफ 1(ए)58-2016-ब-2-दो.—श्री अभिजीत कुमार रंजन, भापुसे, (2014) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, कोतवाली जिला रीवा को दिनांक 14 से 28 मार्च 2017 तक, पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अभिजीत कुमार रंजन, भापुसे, (2014) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, कोतवाली, जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अभिजीत कुमार रंजन, भापुसे, (2014) को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रदाय देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिजीत कुमार रंजन, भापुसे, (2014) उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(बी) 108-2016(बी)-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2012 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+ ग्रेड पे 5400/- में उप पुलिस

अधीक्षक के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है :-

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/ स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	27	सुश्री आकांक्षा परस्ते, ए-2, भोले कुटी रोड, शक्ति नगर, गुप्तेश्वर, जबलपुर म. प्र. 482002	सीधी

(2) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर उपयुक्त कॉलम (4) में अंकित पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौरी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।

(3) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम, आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2000 से शासित होंगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे।

(5) नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग-पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा। एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी।

(6) राज्य शासन के अधीन दिनांक 01 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

(7) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(8) परीवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा की परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परीवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.

(9) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अजांच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

(10) अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

(11) इस नियुक्ति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा याचिका क्र. 21537/2015 द्वारा श्री पीयूष तिवारी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 2 मई 2016 के अनुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर द्वारा चयनित उप पुलिस अधीक्षको से अभिवचन-पत्र प्राप्त किया गया है और तदाशय का अभिवचन पत्रक शासन द्वारा भी प्राप्त किया गया है. उक्त याचिका के विरुद्ध अपील प्रकरण क्र. 347/2016 को माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा खारिज किया गया है. उक्त याचिका के विरुद्ध एक और अपील प्रकरण क्र. 369/2016 दर्ज हुआ था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 9 अगस्त 2016 को प्रकरण की पुनः सुनवाई में आदेश दिनांक 12 अगस्त 2016 द्वारा स्थगन आदेश निरस्त किया जाकर उक्त याचिका में मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17 अगस्त 2016 के अनुसार प्रकरण खारिज किया गया है. माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्र. 21537/2015 श्री पीयूष तिवारी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 2 मई 2016 प्रभावशील है, उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुमति याचिका आई.ए. नं. 11249/2016 लंबित है. यह नियुक्तियों में मान. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में लंबित उक्त विशेष अनुमति याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अध्याधीन रहेंगी.

(12) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की पृविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं.

(13) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6, की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2017

पंजी क्र. 1160-2017-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन एतद्वारा, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर श्री आदर्श कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर का त्यागपत्र दिनांक 28 फरवरी 2017 अपराह्न से स्वीकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविन्द मोहन सक्सेना, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2017

फा. क्र. 3(ए)1-2017-इक्कीस-ब(एक)-1164.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को, मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग में उनके नाम के समक्ष अंकित पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. श्री रामकुमार चौबे, | सचिव, मध्यप्रदेश शासन, |
| नवम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश | विधि और विधायी कार्य |
| भोपाल. | विभाग, भोपाल. |

2. श्री उपेन्द्र कुमार सिंह, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, ग्वालियर.	अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल.	(1)	(2)	(3)
		3	डॉ. ओमप्रकाश तिवारी, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, राजगढ़.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सिवनी (रिक्त स्थान पर).

फा. क्र. I-1-2002-इक्कीस-ब(एक)-1165.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्द्वारा उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है:—

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2017

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 70), राज्य शासन, श्री लालता सिंह पिता श्री बब्बू सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 16 दिसम्बर, 1988 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

क्र.	नाम एवं वर्तमान पद	पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री देवराज बोहरे, नवम् अपर सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय टीकमगढ़ (रिक्त स्थान पर).
2	श्री सभापति यादव, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सिंगरौली एवं लिंक विध सीधी (रिक्त स्थान पर).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 20 जनवरी 2017

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013))

प्र. क्र. 10-अ-82-2016-17.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में छोटाउदयपुर-धार रेलवे लाईन हेतु ग्राम कन्दा तहसील जोबट जिला अलीराजपुर की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 02 में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अनुसूची (1)

ग्राम—कन्दा

तहसील—जोबट

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे. में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि	5.867	6.764	12.631

अनुसूची (2)

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	भूमि का रकबा				अर्जित की जाने वाली भूमि रकबा (हेक्टर में)		
		खसरा क्र.	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	रतन पिता दिपला जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	551/1	0.000	1.180	1.180	0.000	0.343	0.343
2	बालु पिता दीपला जाति भीलाला पता सा. देह भूमिस्वामी.	551/2	0.000	0.690	0.690	0.000	0.127	0.127
3	नाहला पिता फतीया जाति भीलाला पता सा. देह भूमिस्वामी.	552	2.280	0.000	2.280	0.325	0.000	0.325
4	बुधीया, सुभा पिता मालू व केनाबाई बेवा मालू जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	555	0.000	0.500	0.500	0.000	0.014	0.014
5	बालू पिता दीपला जाति भीलाला पता सा. देह भूमिस्वामी.	554	0.000	0.550	0.550	0.000	0.299	0.299
6	रतनसिंह, रामसिंह, भगत, भूचर, डिगु पिता नानकिया जाति भीलाला पता सा. देह भूमिस्वामी.	558	1.610	0.000	1.610	0.382	0.000	0.382
7	रतनसिंह, रामसिंह, भगत, भूचर, डिगु पिता नानकिया जाति भीलाला पता सा. देह भूमिस्वामी.	559	0.280	0.000	0.280	0.155	0.000	0.155
8	रतनसिंह, रामसिंह, भगत, भूचर, डिगु पिता नानकिया जाति भीलाला पता सा. देह भूमिस्वामी.	613	0.000	0.250	0.250	0.000	0.005	0.005
9	इन्द्रसिंग, भुरला पिता धनसिंग जाति भीलाला पता सा. देह भूमिस्वामी.	612	0.000	1.340	1.340	0.000	0.163	0.163
10	मुकामसिंह पिता नवलसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	561/2	0.000	1.100	1.100	0.000	0.072	0.072
11	मनिया पिता भूचर जाति भीलाला पता सा. चमारबेगड़ा भूमिस्वामी.	611	0.000	0.640	0.640	0.000	0.041	0.041
12	सेकडा पिता रतन जाति भीलाला निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	610/3	0.000	0.740	0.740	0.000	0.497	0.497

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	भगडीया पिता रतन जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	610/2	0.000	0.310	0.310	0.000	0.075	0.075
14	प्रतापसिंग पिता रतन जाति भीलाला पता सा. देह भूमिस्वामी.	610/1	0.000	0.390	0.390	0.000	0.001	0.001
15	प्रतापसिंग पिता रतन जाति भीलाला पता सा. देह भूमिस्वामी.	609/2	0.000	0.910	0.910	0.000	0.339	0.339
16	थानसिंह पिता नवलसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	609/1	0.000	0.360	0.360	0.000	0.308	0.308
17	मेहबुब पिता रतनसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	606/2	0.000	0.880	0.880	0.000	0.290	0.290
18	मेहताब पिता रतनसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	606/1	0.000	0.350	0.350	0.000	0.316	0.316
19	थानसिंह पिता नवलसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	561/1	0.000	0.900	0.900	0.000	0.063	0.063
20	अमरसिंह पिता नाथु जाति भीलाला पता सा. देह भूमिस्वामी.	594	0.000	0.850	0.850	0.000	0.019	0.019
21	सालम राजु पिता जामसिंग, केलीबाई बेवा जामसिंह अमनसिंह पिता खुमला जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	603	0.000	2.050	2.050	0.000	1.017	1.017
22	सालम राजु पिता जामसिंग, केलीबाई बेवा जामसिंह अमनसिंह पिता खुमला जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	602	0.000	1.550	1.550	0.000	0.686	0.686
23	सालम राजु पिता जामसिंग, केलीबाई बेवा जामसिंह अमनसिंह पिता खुमला जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	601	0.660	0.000	0.660	0.071	0.000	0.071
24	भुवानसिंह पिता अबजी जाति भील पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	648/पैकी-2	0.000	1.000	1.000	0.000	0.500	0.500
25	केकड़िया पिता भुवान भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	646	0.000	0.820	0.820	0.000	0.016	0.016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
26	बहादुर, सादर, नाहदर, वारितया, जंगु, रमेश, पिता जोहरसिंह व सहजु बैवा जोहरसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	648/पैकी-3	0.000	0.500	0.500	0.000	0.132	0.132
27	गुलसिंह दितु मूलसिंग पिता जुवानसिंग शेरू बीलजर पिता भुरला ना.वा.स.प. काका दितु पिता जुवानसिंह जाति भीलस्वामी.	1015	2.290	0.000	2.290	0.552	0.000	0.552
28	गुलसिंह दितु मूलसिंग पिता जुवानसिंग शेरू बीलजर पिता भुरला ना.वा.स.प. काका दितु पिता जुवानसिंह जाति भील भूमिस्वामी.	1112	0.000	0.930	0.930	0.000	0.008	0.008
29	अबरसिंह बालु भलु सोमजिया छगन पिता नानीया सवलसिंह पिता मगन जाति भीलाला पता सा. देह भूमिस्वामी.	1012	2.080	0.000	2.080	0.288	0.000	0.288
30	अबरसिंह बालु भलु सोमजिया छगन पिता नानीया सवलसिंह पिता मगन जाति भीलाला पता सा. देह भूमिस्वामी.	1010	1.540	0.000	1.540	0.387	0.000	0.387
31	सेलबाई पति रामसिंग जाति भीलाला पता सा. देह भूमिस्वामी.	1129	1.320	0.000	1.320	0.505	0.000	0.505
32	जगदीश अजमेरसिंह राकेश सरवन पिता भावसिंग ना.वा.स.प. माता नानकी व नानकी बैवा भावसिंह व सरदार दितु पिता भुरसिंह जाति भीलाला पता सा. देह भूमिस्वामी.	1130	0.620	0.000	0.620	0.447	0.000	0.447
33	जगदीश अजमेरसिंह राकेश सरवन पिता भावसिंग ना.वा.स.प. माता नानकी व नानकी बैवा भावसिंह व सरदार दितु पिता भुरसिंह जाति भीलाला पता सा. देह भूमिस्वामी.	1136	0.400	0.000	0.400	0.069	0.000	0.069
34	जगदीश अजमेरसिंह राकेश सरवन पिता भावसिंग ना.वा.स.प. माता नानकी व नानकी बैवा भावसिंह व सरदार दितु पिता भुरसिंह जाति भीलाला पता सा. देह भूमिस्वामी.	1137	0.550	0.000	0.550	0.190	0.000	0.190

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	जगदीश अजमेरसिंह राकेश सरवन पिता भावसिंग ना.वा.स.प. माता नानकी व नानकी बैवा भावसिंह व सरदार दितु पिता भुरसिंह जाति भीलाला पता सा. देह भूमिस्वामी.	1135	0.120	0.000	0.120	0.120	0.000	0.120
36	प्रतापसिंह, लक्ष्मणसिंह, राजेन्द्रसिंह, निर्मला पिता रायसिंह व सेलबाई बेवा रायसिंह जाति भीलाला पता सा. देह भूमिस्वामी.	1134	0.700	0.000	0.700	0.551	0.000	0.551
37	कलमसिंग मुकेश पिता जोगड़ा पवन पाचु पिता जोगड़ा ना.बा.स.प्र. माता मेहरबाई व मेहरबाई बेवा जोगड़ा रूघनाथ पिता नानसिंह मांगती बेवा नानसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	1139	1.230	0.000	1.230	0.589	0.000	0.589
38	जगदीश अजमेरसिंह राकेश सरवन पिता भावसिंग ना.वा.स.प. माता नानकी व नानकी बैवा भावसिंह व सरदार दितु पिता भुरसिंह जाति भीलाला पता सा. देह भूमिस्वामी.	1138	1.070	0.000	1.070	0.276	0.000	0.276
39	गुलाबसिंह पिता बालु जाति भीलाला पता सा. देह 1/2 भाग भूमिस्वामी जगन गोविन्द नाबा. पिता वेस्ता न. बा. स. माता वेस्ती व वेस्ती बेवा वेस्तारूगनाथ पिता भुवानसिंह जाति भीलाला पता सा. देह 1/2 भाग भूमिस्वामी दया बेवा भुवानसिंह जाति भीलाला पता सा. देह 1/2 भाग भूमि स्वामी.	1163	1.040	0.000	1.040	0.066	0.000	0.066
40	जगदीश अजमेरसिंह राकेश सरवन पिता भावसिंग ना.वा.स.प. माता नानकी व नानकी बैवा भावसिंह व सरदार दितु पिता भुरसिंह जाति भीलाला पता सा. देह भूमिस्वामी.	1161	0.180	0.000	0.180	0.144	0.000	0.144
41	गुलाबसिंह पिता बालु जाति भीलाला पता सा. देह 1/2 भाग भूमिस्वामी जगन गोविन्द नाबा. पिता वेस्ता न. बा. माता वेस्ती व वेस्ती बेवा वेस्तारूगनाथ पिता भुवानसिंह जाति भीलाला पता सा. देह 1/2 भाग भूमिस्वामी दया बेवा भुवानसिंह जाति भीलाला पता सा. देह 1/2 भाग भूमि स्वामी.	1162	0.000	0.230	0.230	0.000	0.114	0.114

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	कलमसिंह मुकेश पिता जोगडा पवन पाचु पिता जोगडा ना.बा.स.प्र. माता मेहरबाई व मेहरबाई बेवा जोगडा रूघनाथ पिता नानसिंह मांगती बेवा नानसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1160	0.390	0.000	0.390	0.243	0.000	0.243
43	कलमसिंह मुकेश पिता जोगडा पवन पाचु पिता जोगडा ना.बा.स.प्र. माता मेहरबाई व मेहरबाई बेवा जोगडा रूघनाथ पिता नानसिंह मांगती बेवा नानसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1164	0.250	0.000	0.250	0.152	0.000	0.152
44	अबरसिंह बालु भलु सोमजिया छगन पिता नानीया सवलसिंह पिता मगन जाति भीलाला पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	1165	0.240	0.000	0.240	0.117	0.000	0.117
45	गुलाबसिंग पिता बालु जाति भीलाला पता सा. देह 1/2 भाग भूमिस्वामी जगन गोविन्द नाबा. पिता वेस्ता न. बा. माता वेस्ती व वेस्ती बेवा वेस्तारूगनाथ पिता भुवानसिंह जाति भीलाला पता सा. देह 1/2 भाग भूमिस्वामी दया बेवा भुवानसिंग जाति भीलाला पता सा. देह 1/2 भाग भूमि स्वामी.	934	0.790	0.000	0.790	0.031	0.000	0.031
46	भंगडा पिता रतनिया जाति भिलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1168	0.000	0.120	0.120	0.000	0.057	0.057
47	भंगडा पिता रतनिया जाति भिलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1169	1.170	0.000	1.170	0.207	0.000	0.207
48	अबरसिंह बालु भलु सोमजिया छगन पिता नानीया सवलसिंह पिता मगन जाति भीलाला पता सा. देह भूमिस्वामी.	1170	0.000	0.620	0.620	0.000	0.235	0.235
49	कलमसिंग पिता भंगडा कुवरसिंह पिता धनिया जाति भीलाला पता सा. देह भूमिस्वामी.	1172	0.000	0.180	0.180	0.000	0.064	0.064
50	कलमसिंह मुकेश पिता जोगडा पवन पाचु पिता जोगडा ना.बा.स.प्र. माता मेहरबाई व मेहरबाई बेवा जोगडा रूघनाथ पिता नानसिंह मांगती बेवा नानसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1174	0.000	1.330	1.330	0.000	0.445	0.445

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	भुवर धानसीग भावसीग पिता हरसीग भीलाला पता सा. देह भूमिस्वामी.	1196	0.000	0.510	0.510	0.000	0.121	0.121
52	प्रेमसिंह कुवासिंह पिता केकडीया राजेन्द्रसिंह अजमेरसिंह पिता गुलाब राहबाई बेवा गुलाब दीलीप भीलु बा रामबाई सवलसिंह राकेश नानीबाई सुरजबाई नाबा पिता ईलु स प माता केकुबाई बेवा ईलु ज्ञानसिंह नरसिंह थानासिंह पिता पिरु जाति भील पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1177	0.000	0.730	0.730	0.000	0.243	0.243
53	कुंवर पिता धनिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1178/पैकी-1	0.000	0.560	0.560	0.000	0.154	0.154
योग .			20.810	23.070	43.880	5.867	6.764	12.631

प्र. क्र. 5-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में छोटा उदयपुर-धार रेलवे लाईन हेतु ग्राम खण्डाला तहसील अलीराजपुर जिला अलीराजपुर की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 02 में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अनुसूची (1)

ग्राम खण्डाला

तहसील अलीराजपुर

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे. में)						
		सिंचित	असिंचित	कुल रकबा				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
1	निजी भूमि	16.63	8.36	24.99				
अनुसूची (2)								
क्र.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	भूमि का रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि रकबा (हेक्टर में)			
		खसरा क्र.	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	मुकेश पिता सीताराम जाति भीलाला नि. ग्राम भूमिस्वामी.	401	0.45	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45
2	वज्रेसिंग सुमनसिंग दुलसिंह, गोमानसिंह पिता नानका जाति भीलाला निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	403	0.00	1.40	1.40	0.00	0.08	0.08
3	वेस्ता पिता रामसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	410	0.95	0.00	0.95	0.65	0.00	0.65

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	वेस्ता पिता रामसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	411	0.00	0.60	0.60	0.00	0.50	0.50
5	वेस्ता नाहरसिंह सेरु वेरसिंह भेरसिंह राजु पिता गुमानसिंह व धिचली बेवा गुमानसिंह व मिरला रणसिंह जाति भीलाला पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	413	0.00	2.11	2.11	0.00	0.02	0.02
6	वेस्ता नाहरसिंह सेरु वेरसिंह भेरसिंह राजु पिता गुमानसिंह व धिचली बेवा गुमानसिंह व मिरला रणसिंह जाति भीलाला पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	415	0.00	1.00	1.00	0.00	0.62	0.62
7	वेस्ता पिता रामसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	416	1.30	0.00	1.30	0.48	0.00	0.48
8	भूरसिंह पिता जैमला जाति भीलाला नि. ग्राम भूमिस्वामी.	1368	1.10	0.00	1.10	0.37	0.00	0.37
9	कनु मनु पिता बुधिया व जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	847	0.02	5.38	5.40	0.00	0.08	0.08
10	दुलेसिंह, कैलाश, सुभान पिता जुवानसिंह व बनी धर्म. स्व. जुवानसिंह व केसरसिंह, गणपत रणछोड़ पिता विरीया जाति भीलाला नि. ग्राम भूमिस्वामी.	880	2.07	0.00	2.07	0.28	0.00	0.28
11	इडला पिता माधौ हिगली बेवा माधौ जाति भीलाला निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	883	0.20	0.00	0.20	0.06	0.00	0.06
12	मांगु पिता सेकडीया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	892	0.24	0.00	0.24	0.04	0.00	0.04
13	अजेसिंह, सुभानसिंह, दुलेसिंह, गैमानसिंह पिता नानका अमनसिंह पिता रतनसिंह, गुलाबसिंह पिता भीकनसिंह, कैलाश पिता मोहनसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	893	1.10	0.00	1.10	0.43	0.00	0.43
14	बोन्दरसिंह पिता बुधिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	896	0.55	0.02	0.57	0.02	0.00	0.02
15	इडला पिता माधौ हिगली बेवा माधौ जाति भीलाला पिता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	897	0.79	0.01	0.80	0.62	0.00	0.062
16	गुमान, डेडु पिता जामसिंह बनी बेवा जामसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	899	0.40	0.01	0.41	0.28	0.00	0.28
17	जुवानसिंह मंगलिया गुमानभुरू पिता नानसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	913	0.00	0.90	0.90	0.00	0.05	0.05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18	कलमसिंह भुवानसिंह दिलीप पिता नानला व मेहरबाई बे. नानला कुवरसिंग गिन्द व शामबाई पिता जालम, दितली बे. जालम जाति भीलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	914	0.00	0.70	0.70	0.00	0.62	0.62
19	कलमसिंह भुवानसिंह दिलीप पिता नानला व मेहरबाई बे. नानला कुवरसिंग गिन्द व शामबाई पिता जालम, दितली बे. जालम जाति भीलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	915	0.00	0.20	0.20	0.00	0.15	0.15
20	इडला पिता माधौ हिगली बेवा माधौ जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	922	1.38	0.00	1.38	0.82	0.00	0.82
21	अजेसिंह, सुभानसिंह, दुलेसिंह गैमानसिंह पिता नानका व अमनसिंह पिता रतनसिंह गुलाबसिंह पिता भीकनसिंह, कैलाश पिता मोहनसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	926	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	0.35
22	दुलेसिंह, कैलाश, सुभान पिता जुवानसिंह व बनी धर्म. स्व. जुवानसिंह व केसरसिंह, गणपत रणछोड़ पिता विरिया जाति भीलाला पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	927	0.00	0.40	0.40	0.00	0.10	0.10
23	कुवरसिंह, फाकु, सरदार पिता लक्ष्मण व सायरी धर्म पत्नि स्व. लक्ष्मण व नहारसिंह पिता पहाडसिंह जाति भीलाला नि. ग्राम भूमिस्वामी.	933	0.00	4.62	4.62	0.00	0.67	0.67
24	भाया पिता जामसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	940/2	0.58	0.02	0.60	0.38	0.00	0.38
25	अंगरसिंह पिता जामसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	940/3	0.50	0.00	0.50	0.42	0.00	0.42
26	भगवानसिंह, मेहताब, सवलसिंह पिता गलसिंह, कुवरबाई धर्म पत्नि स्व. गलसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	947	0.45	0.00	0.45	0.19	0.00	0.19
27	सुरत, प्रकाश पिता धोन्दु व मेरबाई धर्म स्व. धोन्दु जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	949	0.00	0.49	0.49	0.00	0.03	0.03
28	सुरत, प्रकाश पिता धोन्दु व मेरबाई धर्म स्व. धोन्दु जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	952	0.00	0.70	0.70	0.00	0.14	0.14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
29	मोहनसिंह पिता केरिया जाति भीलाला निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	953	0.42	0.00	0.42	0.32	0.00	0.32
30	भगवानसिंह, मेहताब, सवलसिंह पिता गलसिंह, कुवरबाई धर्म पत्नि स्व. गलसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	960	0.70	0.00	0.70	0.06	0.00	0.06
31	सुरत, प्रकाश पिता धोन्दु व मेरबाई धर्म स्व. धोन्दु जाति भीलाला पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	963	0.00	1.52	1.52	0.00	0.42	0.42
32	भुरु पिता अबजी, भिकला चन्द्ररसिंह, अमनसिंह, बहादुर पिता प्रताप, चुनकी बाई धर्म पत्नि स्व. प्रताप जाति भीलाला निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1026	1.79	0.00	1.79	0.65	0.00	0.65
33	भुरु पिता अबजी, भिकला चन्द्ररसिंह, अमनसिंह, बहादुर पिता प्रताप, चुनकी बाई धर्म पत्नि स्व. प्रताप जाति भीलाला निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1027	0.60	0.00	0.60	0.09	0.00	0.09
34	आपसिंह पिता दिपला, नानला पिता रायसिंह व प्रेमसिंह पिता जालमसिंह पेमला, सहजु, पिता रामसिंह जाति भील नि. ग्राम भूमिस्वामी.	1178	0.00	1.88	1.88	0.00	0.30	0.30
35	सुरत पिता दरियावसिंह जाति भीलाला पता निवास ग्राम भूमिस्वामी.	1182	0.00	0.60	0.60	0.00	0.36	0.36
36	संतर बाई पिता दसरीया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1183	0.58	0.00	0.58	0.58	0.00	0.58
37	सुरत पिता दरियावसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1184	1.00	0.00	1.00	0.30	0.00	0.30
38	संतर बाई पिता दसरीया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1196	1.36	0.00	1.36	0.81	0.00	0.81
39	साथरी पति लक्ष्मण जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1198	0.60	0.00	0.60	0.33	0.00	0.33
40	बोन्दरसिंह पिता बुधिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1199	1.08	0.00	1.08	0.79	0.00	0.79
41	नुरला पिता गट्टु जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1268	0.55	0.00	0.55	0.03	0.00	0.03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	गैमान पिता वरजिया जाति भीलाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	1200/1	0.36	0.00	0.36	0.10	0.00	0.10
43	फुलबाई पिता छीतू दली बेवा छीतू जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1273	0.97	0.00	0.97	0.03	0.00	0.03
44	इन्दरसिंह पिता भुरसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1274	1.10	0.00	1.10	0.39	0.00	0.39
45	इडला, कासलीया पिता लट्टु नानबाई बेवा लट्टु व राकेश पिता इन्दरसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1275	0.88	0.00	0.88	0.49	0.00	0.49
46	रतनीया, मगनिया, थानसिंह, कदम पिता मनजी सेलकी बेवा मनजी जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1276	0.00	1.06	1.06	0.00	0.02	0.02
47	इडला, कासलीया पिता लट्टु नानबाई बेवा लट्टु व राकेश पिता इन्दरसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1290	2.10	0.00	2.10	1.20	0.00	1.20
48	हिरला पिता भोलिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1292	0.00	0.41	0.41	0.00	0.15	0.15
49	कुवरसिंह पिता वालसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1306	0.00	0.30	0.30	0.00	0.05	0.05
50	मांगु पिता सेकडीया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1308	0.18	0.00	0.18	0.12	0.00	0.12
51	अमरसिंह पिता काना जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1309	0.19	0.00	0.19	0.03	0.00	0.03
52	सुमा पिता अबला व झुना धर्म पत्नि स्व. अबला जाति भीलाला पता निवासी ग्राम.	1310	0.34	0.00	0.34	0.33	0.00	0.33
53	दशरिया, रेमसिंह, कबला जाति खरसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1311	0.00	1.65	1.65	0.00	0.45	0.45
54	कना पिता सेकडीया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1314	0.00	0.68	0.68	0.00	0.27	0.27
55	मांगु पिता सेकडीया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1315	0.00	0.67	0.67	0.00	0.54	0.54
56	सुमा पिता अबला व झुना धर्म पत्नि स्व. अबला जाति भीलाला पता निवासी ग्राम.	1316	0.54	0.00	0.54	0.30	0.00	0.30
57	अमरसिंह पिता काना जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1317	0.56	0.00	0.56	0.50	0.00	0.50

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
58	सुमा पिता अबला व झुना धर्म पत्नि स्व. अबला जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1318	0.16	0.00	0.16	0.01	0.00	0.01
59	कनसार पिता दुरसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1338	0.80	0.00	0.80	0.03	0.00	0.03
60	मालसिंह, नाहला पिता भुचरिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1360	0.38	0.00	0.38	0.12	0.00	0.12
61	मालसिंह, नाहला पिता भुचरिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1361	0.30	0.00	0.30	0.23	0.00	0.23
62	जामसिंह, कासलिया, पातालिया पिता केमता जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1362	0.76	0.00	0.76	0.41	0.00	0.41
63	इडला पिता भुरला जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	954/2	1.22	0.03	1.25	0.72	0.00	0.72
64	मोहनसिंह पिता जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	954/3	0.80	0.00	0.80	0.02	0.00	0.02
65	वेस्ता पिता वरजीया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1364	0.85	0.00	0.085	0.01	0.00	0.01
66	झेतु धन्ना, मना पिता गुलाब दुड़ी धर्म पत्नि गुलाब मालु, भूरसिंह, अजय. हतरा, मुकेश, पिता किशन जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1365	0.88	0.00	0.88	0.30	0.00	0.30
67	इडला कासलीया पिता लटु, नानबाई बेबा लटु व राकेश पिता इन्दरसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1367	0.47	0.00	0.47	0.15	0.00	0.15
68	छगनसिंह, मोहनसिंह, सुरसिंह दलसिंह मन्दरसिंह, थावरिया पिता राहिया, धुन्छरे बेवाराहिया, कुकरिया, पि. कालिया जाति भीलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	1590	0.00	1.05	1.05	0.00	0.28	0.28
69	नवलसिंह पिता रामसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1591	0.00	0.26	0.26	0.00	0.22	0.22
70	आपसिंह पिता भीलु जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1594	0.00	0.30	0.30	0.00	0.01	0.01
71	धनिया पिता वेस्ता जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1597	2.07	0.02	2.09	0.03	0.00	0.03
72	धनिया पिता वेस्ता जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1599	1.92	0.00	1.92	0.01	0.00	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
73	धनिया पिता वेस्ता जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1603	1.70	0.00	1.70	0.01	0.00	0.01
74	धनिया पिता वेस्ता जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1606	0.99	0.00	0.99	0.20	0.00	0.20
75	जेमला, खेमला, सरदार पिता भूवानसिंह व मंजु धर्मपत्नी स्व. भुवानसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1641/1	0.00	0.63	0.063	0.00	0.36	0.36
76	अमरिया पिता नानसिंह जाति भीलाला नि. ग्राम भूमिस्वामी.	1641/2	0.60	0.00	0.60	0.30	0.00	0.30
77	नरसिंह पिता नानसिंह जाति भीलाला नि. ग्राम भूमिस्वामी.	1642	1.11	0.00	1.11	0.03	0.00	0.03
78	धनिया पिता वेस्ता जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	1644	0.85	0.00	0.85	0.38	0.00	0.38
79	धनसिंह, कलसिंह पिता जग्गु जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1654	0.00	0.46	0.46	0.00	0.24	0.24
80	जग्गु पिता लालसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1656	0.00	0.18	0.18	0.00	0.11	0.11
81	छगनसिंह, मोहनसिंह, सुरसिंह दलसिंह मन्दरसिंह, थावरिया पिता राहिया, धुन्छरे बेवाराहिया, कुकरिया, पि. कालिया जाति भीलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	1657	0.00	0.55	0.55	0.00	0.01	0.01
82	जग्गु पिता लालसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1660	0.00	0.25	0.25	0.00	0.13	0.13
83	इन्दरसिंह, प्रतापसिंह, देसिंह, पिता भुरिया व फुलबाई धर्म पत्नी स्व. भूरिया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	1661	0.00	0.77	0.77	0.00	0.28	0.28
84	डुगरिया पिता गलु जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	1663	0.17	0.00	0.17	0.05	0.00	0.05
85	डुगरिया पिता गलु जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	1665	0.40	0.00	0.40	0.05	0.00	0.05
86	राजु पिता नानकीया व भंगडी पिरली धर्म. पत्नी स्व. इडला जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1674	1.32	0.00	1.32	0.41	0.00	0.41

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
87	राजु पिता नानकीया व भंगडी पिरली धर्म. पत्नी स्व. इडला जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1675	1.28	0.00	1.28	0.13	0.00	0.13
88	वेस्ता पिता वरजीया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1676	0.65	0.00	0.65	0.01	0.00	0.01
89	राजु पिता नानकीया व भंगडी पिरली धर्म. पत्नी स्व. इडला जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1677	0.00	0.86	0.86	0.00	0.57	0.57
90	वेस्ता पिता वरजीया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1679	0.00	3.40	3.40	0.00	0.16	0.16
91	वेस्ता, नहारसिंह, सेरू, वेरसिंह, भेरसिंह, राजु, पिता गुमानसिंह व धिचली बेवा गुमानसिंह मिरला पिता रणसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	422	0.80	0.00	0.80	0.01	0.00	0.01
92	मुकामसिंह पिता रेवसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	737	0.00	0.75	0.75	0.00	0.01	0.01
93	कालसिग पिता झेन्दु जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	844	0.00	0.73	0.73	0.00	0.01	0.01
94	सायरी पति लक्ष्मण जाति भीलाला निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	900	1.00	0.02	1.02	0.02	0.00	0.02
95	अजेसिंह, सुभानसिंह, दुलेसिंह, गैमानसिंह पिता नानका व अमनसिंह पिता रतनसिंह व गुलाबसिंह पिता भीकनसिंह व कैलाश पिता मोहनसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	925	0.33	0.00	0.33	0.01	0.00	0.01
96	सुरपाल, कैरू, रमेश पिता वेस्ता व वेस्ता पिता थावरिया भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1357	0.77	0.00	0.77	0.01	0.00	0.01
97	वेस्ता पिता वरजीया जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1692	1.03	0.02	1.05	0.01	0.00	0.01
98	कमलेश पिता प्रेमसिंह व खजरीबाई धर्म पत्नी स्व. प्रेमसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	1201	0.68	0.00	0.68	0.02	0.00	0.02
योग .			52.27	37.96	90.23	16.63	8.36	24.99

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 8 मार्च 2017

प्र. क्र. ए-12266.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ़, कुण्डलिया बाँध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम—तीतरी

तहसील—सारंगपुर

जिला—राजगढ़

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बाँध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से.	122.749	111.533
योग :		122.749	111.533

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बाँध परियोजना में प्रभावित होने से

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा	भूमि पर स्थावर सम्पत्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	आत्माराम पिता शंकरलाल, जाति गुर्जर, पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	24/1 203/4 223/1	0.728 0.142 0.158	0.728 0.142 0.158	पक्का कुआ 1 गहराई 7 मी. चौड़ाई 7 मी.
योग . .		1.028	1.028	1.028	
2	आत्माराम पिता देवीसिंह गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	221 279/2 279/4	0.240 0.253 0.253	0.240 0.100 0.253	
योग . .		0.746	0.593	0.593	
3	कमल सिंह पिता देवसिंह जाति गुर्जर, पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	194/2 232 279/6	0.126 0.190 0.506	0.126 0.190 0.200	
योग . .		0.822	0.516	0.516	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
4	हिन्दु सिंह देव सिंह चंदर सिंह पिता कालू सिंह मेहरबान सिंह मोड़ सिंह पिता अमर सिंह रामसिंह पिता शंकरलाल गिलास बाई पुत्री कालू जी बाजा बाई पुत्री कालू जी रामप्रसाद बाई मानकुंवर राजू बाई पिता शंकरलाल कृष्णाबाई पुत्री अमर सिंह प्रहलाद बाई पुत्री कालू जी अयोध्या बाई बेवा शंकरलाल फुन्दी बाई बेवा अमर सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	297/2 298/3	0.013	0.013		
		योग . .	0.013	0.013		
5	गीताबाई पिता शंकरलाल ईश्वरसिंह पिता भगवानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	21/1 46/1 255/1 256/1 260/1 277/3/1	0.229 0.139 0.101 0.019 0.93 0.066	0.100 0.139 0.101 0.019 0.093 0.066		
		योग . .	0.647	0.518		
6	घीसालाल प्रहलाद चंद्रा सिंह मानसिंह करणसिंह पिता पुरालाल गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	159 160 163 164	0.063 0.076 0.291 1.113	0.053 0.076 0.291 0.550	कच्चा कुंआ-1 गहराई 6 मी. चौड़ाई 7 मी. संतरे के पौधे-35 बांस के पौधे 02	
		योग . .	1.543	0.970		
7	देवीसिंह पिता मेघराज गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	4/2/2/1 267/2/1 270/2/1 274/2/4	0.223 0.053 0.016 0.034	0.223 0.053 0.016 0.034		
		योग . .	0.326	0.0326		
8	नारायण पिता शिवसिंह गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	206	0.469	0.469		
		योग . .	0.469	0.469		
9	पप्पु सिद्धनाथ बहादरसिंह पिता अनारसिंह लीलाबाई बैवा अनारसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	21/2/2 46/2/2/1 254/2 255/2/2 256/2/2 260/2/2 277/3/2/2	0.229 0.139 0.007 0.078 0.019 0.093 0.067	0.080 0.139 0.007 0.078 0.019 0.093 0.067		
		योग . .	0.632	0.483		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	प्रहलादसिंह बाबुलाल पिता शिवसिंह व रम्भाबाई बै शिवसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	4/2/1 267/1 270/1 274/1 277/8/2/2 295/2/1 297/1 298/2	0.670 0.158 0.051 0.101 0.266 0.026 0.025	0.670 0.158 0.051 0.101 0.266 0.026 0.025	
		योग . .	1.297	1.297	
11	पीरू लालू पिता रामरतन जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	42/3 8 33/1 34/1	1.265 1.037 0.969	1.265 1.037 0.969	आम पेड़-05 महुआ पेड़-02 इमली पेड़-6
		योग . .	3.271	3.271	
12	बलदेव शंकरलाल बंशीलाल चंदर सिंह पिता शोभा गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	297/5 296/6	0.038	0.015	
		योग . .	0.038	0.015	
13	बालुसिंह पिता मेघराज जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	4/2/2/2 267/2/2 270/2/2 274/2/2 277/1/2/2	0.224 0.053 0.016 0.034 0.044	0.224 0.053 0.016 0.034 0.044	
		योग . .	0.371	0.371	
14	भंवरलाल पिता चैना जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	296/2	0.025	0.025	
		योग . .	0.025	0.025	
15	मोड़सिंह पिता सिद्धु आ प सिद्धु पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	22/1 23/1 60 198 295/1	0.076 0.335 0.443 0.063 0.036	0.076 0.335 0.443 0.063 0.036	
		योग . .	0.953	0.953	
16	गंगाराम प्रभुलाल जमुनाप्रसाद सागर कमल पिता मांगीलाल शांताबाई नर्मदाबाई भूलाबाई श्यामाबाई लीलाबाई गीताबाई पुत्री मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	297/6 298/7	0.013	0.013	
		योग . .	0.013	0.013	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	मांगु पिता जालम गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	189/2	0.013	0.013	
		योग . .	0.013	0.013	
18	गिलास बाई गुलाब बाई माता फुन्दी बाई विधवा उमराव सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	297/3 298/4	0.025	0.025	
		योग . .	0.025	0.025	
19	रामचंद्र पिता शंकरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	25/2 216/1 222	0.401 0.253 0.051	0.401 0.253 0.051	आम पेड़-1
		योग . .	0.705	0.705	
20	सीताराम मोड़ सिंह पिता रामरतन मानकुंवर पुत्री रामरतन जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	189/3 7 85 86 208 251	0.013 0.392 0.519 0.063 0.455 0.835	0.013 0.392 0.300 0.015 0.455 0.835	
		योग . .	2.277	2.010	
21	पीरूलाल लालू पिता रामरतन गीताबाई चम्पाबाई सौरमबाई सुरताबाई पिता रामरतन जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	56 57	0.341 1.101	0.341 1.101	
		योग . .	1.442	1.442	
22	भागीरथ अनार कालू इंदर सिंह गिलास बाई अंजु पिता रूग्गा, होकम पिता भागीरथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	297/4 298/5	0.025	0.025	
		योग . .	0.025	0.025	
23	सौरमबाई पति बालू जी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	230/2 231 235 236 239 240 262 263 264/3	0.159 0.051 0.152 0.063 0.329 0.089 0.683 0.076 0.190	0.159 0.051 0.152 0.063 0.329 0.089 0.683 0.076 0.190	
		योग . .	1.792	1.792	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24	सीताराम पिता मेघराज जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	4/2/2/3 267/2/3 270/2/3 274/2/3 277/8/2/3	0.224 0.052 0.018 0.033 0.045	0.224 0.052 0.018 0.033 0.045	
		योग . .	0.372	0.372	
25	सिहिदया भग्या पिता भूलाजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	22/4	1.265	1.265	आम पेड़-1
		योग . .	1.265	1.265	
26	होकम सिंह भगवानसिंह पिता भागीरथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	21/2/1 46/2/1 254/1 255/2/1 256/2/1 260/2/1 277/3/2/1	0.229 0.139 0.008 0.077 0.019 0.093 0.067	0.100 0.139 0.008 0.077 0.019 0.93 0.067	
		योग . .	0.632	0.503	
27	हिन्दुसिंह पिता दरियावसिंह चन्दर बाई व लीलाबाई शांतीबाई पुत्री दरयावसिंह अमरसिंह पिता बापुलाल रम्भाबाई वि. दरयाव सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	271 272 273	0.063 0.076 1.109	0.063 0.076 1.109	
		योग . .	1.248	1.248	
28	रूगनाथ अमर सिंह पिता नाथू अयोध्याबाई वि. नाथू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	84/2 195 211 249 250/2 48 49 50 71 72 73 81 162 189/1	0.759 0.443 0.923 0.013 0.253 1.037 0.076 0.228 0.759 0.506 0.114 1.404 0.304 0.151	0.300 0.400 0.923 0.013 0.253 1.037 0.076 0.228 0.759 0.506 0.114 1.404 0.304 0.137	कच्चा कुंआ-02 गहराई 7 मी. चौड़ाई 6 मी. संतरा पौधे-190 महुआ पेड़-1 कच्चा कुंआ 3 गहराई 4 मी. चौड़ाई 7 मी.
		योग . .	6.970	6.454	
29	अमर सिंह पिता बापूलाल कमलाबाई पति देवीसिंह गजराजसिंह पप्पुसिंह पिता कालू सिंह संपतबाई वि. कालूसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	3/1 6/1 31/1 32/1 59/1	1.043 0.391 0.690 1.106 0.607	1.043 0.391 0.690 1.106 0.607	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		266/1	0.405	0.405	
		277/4	0.202	0.202	
		योग . .	4.444	4.444	
30	करन सिंह पिता शंकरलाल गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	26	1.164	1.164	
		27	0.506	0.506	पक्का कुआ-1
		203/3	0.142	0.142	गहराई 7 मी.
		203/1	0.142	0.142	चौड़ाई 7 मी.
		242	0.114	0.114	
		203/2	0.142	0.142	
		259	0.493	0.493	
		योग . .	2.703	2.703	
31	जगदीश पिता भागीरथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	70/3	1.780	1.780	
		218/3	0.029	0.029	
		279/3	0.759	0.200	
		योग . .	2.568	2.009	
32	जगदीश पिता शंकरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	24/2	0.727	0.727	
		39/2	0.253	0.253	
		223/2	0.158	0.158	
		योग . .	1.138	1.138	
33	देवीसिंह पिता बालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	264/1	0.531	0.400	
		264/2	1.859	0.800	
		265	0.164	0.164	
		275	0.949	0.949	
		294	0.645	0.600	
		293	0.379	0.209	
		योग . .	4.527	3.122	
34	देवीसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	42/2	1.265	1.265	
		52/1	0.754	0.754	
		70/1/1	0.691	0.691	इमली पेड़ 1
		70/1/2	0.691	0.691	
		149	0.063	0.015	
		218/2	0.015	0.015	
		योग . .	3.479	3.431	
35	हरिप्रसाद माधु अमर सिंह सोरमबाई पिता धूला जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	51/1	0.803	0.803	
		76/1	0.044	0.044	
		84/1/1	0.380	0.150	
		134/1	0.133	0.100	
		144/1	0.272	0.272	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		145/1	0.031	0.031	
		147/1	0.076	0.076	पक्का कुआ-1
		148/1	0.063	0.063	गहराई 8 मी.
		192/1	0.461	0.400	चौड़ाई 7 मी.
		237/1	0.012	0.012	इमली का पेड़ 1
		238/1	0.171	0.171	
		246/1	0.076	0.076	
		247/1	0.088	0.088	
		250/1/1	0.126	0.126	
		83/1	1.518	0.100	
		158/1	0.031	0.025	
		161/1	0.120	0.120	
		योग . .	4.405	2.657	
36	नारायणसिंह रामसिंह करण सिंह पारूबाई पिता	14/2	0.601	0.601	
	शिवसिंह बद्रीलाल बाबुलाल मायाबाई, सिद्धीबाई	15/2			
	भूरीबाई पि. भगवानसिंह जाति गुर्जर पता	29/3	0.438	0.438	
	निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	224/2	0.102	0.102	
		योग . .	1.141	1.141	
37	नारायण सिंह भगवानसिंह करण सिंह रामसिंह	40	0.278	0.278	
	पिता शिवसिंह मांगीलाल छीतीबाई वि. भंवरजी	199	0.215	0.215	
	तोलाराम राधेश्याम पिता देवीसिंह हि. 1/4	200	0.139	0.139	
	पुरालाल रामरतन पिता भंवरलाल हि. 1/2	225	0.114	0.114	
	गोकूल प्रसाद कालुजी पिता भैया हि. 1/4				
	जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	277/2	0.531	0.531	
		योग . .	1.277	1.277	
38	सिद्धुलाल पिता गंगाराम व शिवलाल पिता	215	0.506	0.506	
	बंशीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि	216/2	0.430	0.430	
	स्वामी.				
		योग . .	0.936	0.936	
39	प्रहलादसिंह चंदर सिंह मानसिंह घीसालाल	16	1.795	1.795	
	करण सिंह गीताबाई पिता. पुरा शैतानबाई वि.	55	1.328	1.328	
	पुरा समंदर मदन भूरीबाई पिता प्रहलाद देवीसिंह	77	0.215	0.215	
	रूगनाथ पिता कालू, बिहारीलाल, नरभैयसिंह पिता	140	0.013	0.013	आम पेड़-2
	बलदेव जानीबाई वि. बलदेव जाति गुर्जर पता	143	0.253	0.253	इमली पेड़-4
	निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	197	0.089	0.089	बाँस पेड़-4
		210	1.151	1.151	महुआ 1
		212	0.038	0.038	
		220	0.531	0.531	
		226	0.101	0.101	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		252	0.822	0.822	
		253	0.101	0.101	
		278	4.831	2.000	
		योग . .	11.268	8.437	
40	पारस पिता बालूजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	201	0.013	0.013	
		202	1.278	1.278	कच्चा कुआं-1
		228	0.051	0.051	गहराई 5 मी.
		230/1	0.436	0.436	चौड़ाई 6 मी.
		योग . .	1.778	1.778	
41	शिवलाल कालू सिंह पिता पीरू बाजाबाई पिता काल बाब रामचरण पर्वत सिंह पिता जीत भूराबाई शीलाबाई प्रेमबाई पिता जीतू रामकुंवर बेवा जीतू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	22/2	0.088	0.088	
		23/2	0.323	0.323	आम पेड़ 1
		47	1.607	1.607	नीबू पेड़ 1 सहलूत 1
		योग . .	2.018	2.018	
42	बालू पिता जगमान जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	17/2	0.599	0.599	
		20/2	0.278	0.278	
		28/2	0.240	0.240	
		142/2	0.063	0.063	
		204/2	0.253	0.253	
		227/2	0.110	0.110	
		229/2	0.013	0.013	
		241/2	0.038	0.038	
		योग . .	1.594	1.594	
43	दिलीप सिंह पिता मानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	135/2	0.021	0.021	
		136/2	0.004	0.004	
		137/2	0.026	0.026	
		138/2	0.029	0.029	
		139/2	0.013	0.013	
		135/1	0.021	0.021	
		136/1	0.005	0.005	
		137/1	0.025	0.025	
		138/1	0.029	0.029	
		139/1	0.013	0.013	
		योग . .	0.186	0.186	
44	बालू पिता भैरू भूलीबाई अयोध्याबाई चंदूबाई पुत्री भैरू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	35	0.063	0.063	आम पेड़-3
		38	0.114	0.114	
		39/1	0.316	0.316	
		41	443	443	
		योग . .	0.936	0.936	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
45	भागीरथ पिता उमराव जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	52/3 61 62 66 67 68 166 209/2 213/2 217/1 234/2	0.063 0.417 0.177 0.101 0.089 0.405 0.164 0.253 0.683 0.443 0.228	0.063 0.417 0.177 0.101 0.089 0.405 0.024 0.253 0.683 0.443 0.228	
		योग . .	3.023	2.883	
46	मोडसिंह पिता सिद्धलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	25/1/2/1 36/2 58	0.400 0.291 0.595	0.400 0.291 0.595	
		योग . .	1.286	1.286	
47	मांगीलाल पिता बोंदा जी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	17/1 20/1 28/1 227/1 229/1 241/1 142/1	0.598 0.279 0.240 0.110 0.012 0.038 0.636	0.598 0.279 0.240 0.110 0.012 0.038 0.636	
		योग . .	1.913	1.913	
48	गंगाराम प्रभुलाल जमुनाप्रसाद सागर कमल पिता मांगीलाल शांताबाई नर्मदाबाई भुलाबाई श्यामाबाई लीलाबाई गीताबाई पुत्री मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	2/1 4/1 5 243 244 258 261 277/7	0.506 1.341 0.291 0.089 0.278 0.190 0.392 0.266	0.506 1.341 0.291 0.089 0.278 0.190 0.392 0.266	आम पेड़-2
		योग . .	3.353	3.353	
49	मांगीलाल रमेश पिता भौला जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	51/2 76/2 84/1/2 144/2 145/2 147/2 148/2 192/2	0.804 0.045 0.379 0.272 0.032 0.076 0.063 0.462	0.804 0.045 0.150 0.272 0.032 0.076 0.063 0.400	आम पेड़-2 इमली पेड़-4 महुआ पेड़-2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		237/2	0.013	0.013	
		238/2	0.171	0.171	
		246/2	0.076	0.076	
		247/2	0.089	0.089	
		250/1/2	0.127	0.127	
		134/2	0.133	0.100	
		158/2	0.032	0.016	
		161/2	0.120	0.076	
		योग . .	2.894	2.510	
50	निर्भय सिंह पिता रामदयाल कृष्णाबाई, प्रेमबाई सोनाबाई पिता रामदयाल, मांगू बाई बेवा रामदयाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	12/2	0.322	0.322	
		36/1/2	0.430	0.430	
		214/2	0.411	0.411	
		277/1/2	0.266	0.266	
		योग . .	1.429	1.429	
51	शिवलाल पिता बंशीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	12/1	0.322	0.322	
		36/1/1	0.430	0.430	
		214/1	0.411	0.411	
		277/1/1	0.265	0.265	
		योग . .	1.428	1.428	
52	विजयसिंह देवबाई, पिता मांगीलाल प्रभुलाल भगवानसिंह, गिलास बाई पिता दर्याव सिंह, जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	37/2	0.582	0.582	कच्चा कुआ-1
		52/2	0.108	0.108	गहराई 6 मी.
		70/4	1.700	1.700	चौड़ाई 8 मी.
		141	0.126	0.100	आम पेड़-1
		194/3	0.089	0.089	बांस पेड़-3
		196	0.063	0.063	
		209/3	0.240	0.240	
		218/4	0.029	0.029	
		219	0.455	0.455	
		233	0.228	0.228	
		279/5	1.517	0.217	
		योग . .	5.137	3.811	
53	विष्णुप्रसाद पिता सिद्धनाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	37/1	0.582	0.582	कच्चा कुआ-1
		65	0.063	0.063	गहराई 8 मी.
		70/2	0.253	0.253	चौड़ाई 8 मी.
		193	0.759	0.759	
		209/1	0.253	0.253	
		213/1	0.683	0.683	आम पेड़-2
		217/2	0.442	0.442	महुआ पेड़-1
		218/1	0.015	0.015	बांस-3
		234/1	0.227	0.227	
		279/1	0.759	0.300	
		योग . .	4.036	3.577	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
54	विष्णुप्रसाद पिता सिद्धलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	30 251/1	0.101 0.400	0.101 0.400	
		योग . .	0.501	0.501	
55	देवसिंह शैतानबाई सौरम बाई नर्मदा बाई पिता समंदरसिंह देवबाई पिता हरलाल प्रहलाद पिता हरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	6/2 59/2 44 63 64 257 266/2 268 269 277/5 31/2, 32/2	0.400 0.670 0.885 0.569 0.493 0.164 0.405 0.481 0.152 0.202 0.601	0.400 0.670 0.885 0.569 0.493 0.164 0.405 0.481 0.152 0.202 0.601	
		योग . .	5.022	5.022	
56	सिद्धिया गंगा सीताबाई, शांताबाई श्यामू बाई कंकू बाई मेवा बाई पिता धुला, प्रभुलाल छीतू लीलाबाई शारदा बाई पिता भंवरिया, भंवरिया बलदेव शंकर पिता दरयाव, मांगीलाल पिता शंकर, गीताबाई सीता कमला शांताबाई पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	10 19	1.151 1.859	1.151 1.859	कच्चा कुआ-2 गहराई 6 मी. चौड़ाई 7 मी. गहराई 6 मी. चौड़ाई 7 मी. आम पेड़-1
		योग . .	3.010	3.010	
57	सूरजसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	14/1, 15/1 29/1 224/1	0.601 0.436 0.101	0.601 0.436 0.101	
		योग . .	1.138	1.138	
58	हिन्दुसिंह पिता दरियावसिंह रम्भाबाई वि. दरियावसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	3/2 6/3 31/3 32/3 59/3 80/1	1.053 0.400 0.810 1.107 0.481 1.120	1.053 0.400 0.810 1.107 0.481 1.120	
		योग . .	4.971	4.971	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
59	ईश्वर सिंह पप्पु पिता कालू सम्पत बाई बेवा कालू श्यामा बाई राजू बाई सीता बाई पुत्री कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	2/2	0.253	0.253	
		योग . .	0.253	0.253	
60	विष्णु प्रसाद पिता सिद्धनाथ शैतानबाई बैवा सिद्धनाथ पारू सुगन बाई शांति बाई सजन बाई पुत्री सिद्धनाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	205	0.379	0.379	
		योग . .	0.379	0.379	
61	हिन्दु सिंह पिता दरियाव सिंह चंदा बाई लीला बाई शांति बाई पुत्री दरियाव सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	296/1	0.038	0.038	
		योग . .	0.038	0.038	
62	अमर सिंह पिता बापूलाल जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	296/3	0.025	0.025	
		योग . .	0.025	0.025	
63	नारायण सिंह गोकुलसिंह बाबूलाल पिता भागीरथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	17/3 20/3 28/3 135/3 136/3 137/3 138/3 139/3 142/3 204/3 227/3 229/3 241/3	0.598 0.278 0.241 0.021 0.004 0.025 0.031 0.012 0.063 0.253 0.109 0.013 0.038	0.598 0.278 0.241 0.021 0.004 0.025 0.031 0.012 0.063 0.253 0.109 0.013 0.038	
		योग . .	1.686	1.686	
64	बंशीलाल चन्द्रसिंह पिता शोभाराम सीताराम बाबू रमेश पिता बल्देव सोरमबाई पुत्री बल्देव पारूबाई पुत्री बल्देव इन्द्रसिंह पिता रूग्गा भगवानसिंह रामसिंह कालूसिंह शारदाबाई पुत्री कालूसिंह छमाबाई विधवा कालूसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	29/2/3 46/2/3 254 255/2/3 256/2/3 260/2/3 244/3/2/3	0.917 0.556 0.051 0.389 0.076 0.374 0.331	0.917 0.556 0.051 0.389 0.076 0.374 0.331	
		योग . .	2.694	2.694	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
65	कमलाबाई बेवा राधेश्याम धरमसिंह सौदान पिता राधेश्याम रेखाबाई पुत्री राधेश्याम तोलाराम पिता देवीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	29/2 224/3	1.010 0.101	1.010 0.101	
		योग . .	1.111	1.111	
66	मानसिंह पिता पूरालाल मेहताबबाई कंचनबाई पिता पूरालाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	13 33/2 34/2 207	0.405 0.969 0.481	0.405 0.969 0.481	
		योग . .	1.855	1.855	
67	चन्द्रसिंह गोकुल पिता भाग्या कमल ईश्वर पिता कालू शान्तिबाई पिता कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	9 33/3, 34/3	0.885 0.970	0.885 0.970	आम पेड़-3
		योग . .	1.855	1.855	
68	भूराबाई पत्नी सीताराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	204/1	0.253	0.253	
		योग . .	0.253	0.253	
69	विजय सिंह पिता मांगीलाल प्रभुलाल भगवान सिंह पिता जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	156	0.101	0.030	
		योग . .	0.101	0.030	
		महायोग . .	122.749	111.533	

नोट.—भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजगढ़, दिनांक 9 मार्च 2017

प्र. क्र. ए-12329.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में कुण्डीबेह जलाशय तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़, कुण्डीबेह जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

कुण्डीबेह—तालाब

तहसील—खिलचीपुर

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
1	निजी भूमि कुण्डीबेह जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से ग्राम बरूखेडी.	3.614
2	खिलचीपुर	0.845

योग : 4.459

अनुसूची (2)

(1) ग्राम बरूखेडी की भूमि कुण्डीबेह जलाशय में प्रभावित होने से

क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हे. में)	प्रभावित भूमि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	गोराबाई बैवा खेमा शिवनारायण, रमेश आ. खेमा जाति बलाई निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	74/4	2.578	1.140
			योग . .	2.578
2	अमरसिंह आ रतनलाल जाति चारण निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	2	0.429	0.370
			3	0.227
			4	0.649
			योग . .	1.305
3	सत्यानारायण, दामोदर पिता विजयसिंह मु. शेतानबाई बैवा विजयसिंह जाति सौंधिया निवासी कुण्डीबेह भूमि स्वामी.	6/2	0.305	0.040
			7	0.457
			8	0.721
			योग . .	1.483
4	सत्यनारायण आ. बिजेसिंह सौंधिया निवासी कुण्डीबेह भूमि स्वामी.	6/3	0.506	0.210
			योग . .	0.506
5	सजनसिंह, जसवन्तसिंह पिता मांगीलाल मु. भवरीबाई बेवा मांगीलाल जाति सौंधिया निवासी कुण्डीबेह भूमि स्वामी.	9	0.672	0.090
			योग . .	0.672
6	शेतानबाई पति बिजेसिंह जाति सौंधिया निवासी कुण्डीबेह भूमि स्वामी.	1/2	2.289	0.595
			योग . .	2.289
7	दामोदर पिता विजयसिंह जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	1/1	1.144	0.330
			योग . .	1.144

(1) खिलचीपुर की भूमि कुण्डीबेह जलाशय में प्रभावित होने से—

1	भंवरलाल, रामलाल पिता रूगनाथ जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	524/9	0.696	0.210
			योग . .	0.696
2	नारायण पिता रामलाल जाति सौंधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	524/11	0.506	0.210
			योग . .	0.506
3	भोनीसिंह पिता घीसा जाति सौंधिया निवासी कुण्डीबेह भूमि स्वामी.	524/12	0.886	0.425
			योग . .	0.886
			कुल योग. .	12.065
				4.459

नोट.— भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजगढ़, दिनांक 15 मार्च 2017

प्र. क्र. 19-अ-82-2016-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ की ग्राम रायपुरियाघाटा के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि : ग्राम रायपुरियाघाटा

स. क्र. (1)	प्रभावित कृषक का नाम (2)	खसरा क्र. (3)	कुल रकबा (4)	प्रभावित रकबा (5)
1	कैलाश पिता शंभूसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूस्वामी	3/2/2	0.645	0.645
		74/1	0.127	0.127
		72/1	0.525	0.050
		95/2	0.088	0.088
		280/2	0.126	0.126
	योग . .		1.511	1.036
2	जयकुंवर उर्फ जामकुंवर पति रघुवीरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी.	81/3/1/2	0.253	0.140
		82/1	0.236	0.236
	योग . .		0.489	0.376
3	भंवरलाल, अमृतसिंह, हरिसिंह पिता शंभूसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी.	86/1/1	0.035	0.035
		87/1/1	0.019	0.019
		89/1/1	0.133	0.133
		383/2/1	1.024	0.150
		389/3	0.443	0.443
	योग . .		1.654	0.780
4	तेजसिंह पिता रूपसिंह मु. लाड़कुंवर विधवा रूपसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी.	86/1/2	0.035	0.035
		87/1/2	0.019	0.019
		89/1/2	0.133	0.133
	योग . .		0.187	0.187
5	भंवरलाल, अमृतसिंह, हरिसिंह पिता शंभूसिंह तेजसिंह पिता रूपसिंह मु. लाड़कुंवर विधवा रूपसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी.	88	0.013	0.013
	योग . .		0.013	0.013
6	ईश्वरसिंह, शेलेन्द्रसिंह, सीमाबाई पिता कालूसिंह मु. लाड़ कुंवर विधवा कालूसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी.	77/2	0.031	0.031
		90/1	0.196	0.196
		93/2	0.070	0.070
		132/1/1	0.070	0.070
		132/4/1	0.060	0.060
	177	0.076	0.076	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		212/3	0.127	0.127
		254/1	0.054	0.054
		181/3/1	0.055	0.055
		योग . .	0.739	0.739
7	मोहनसिंह पिता हनुमंतसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी.	77/1	0.032	0.032
		90/2/1	0.126	0.126
		93/1	0.069	0.069
		132/2/1	0.090	0.090
		132/3/1	0.060	0.060
		175/2/1	0.025	0.025
		212/1	0.126	0.126
		256	0.013	0.013
		254/2	0.055	0.055
		181/2/1	0.055	0.055
		योग . .	0.651	0.651
8	चन्द्रसिंह, अनारसिंह, गुलाबसिंह पिता गोपालसिंह मु. रतनकुंवर विधवा गोपालसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी.	97/1	1.000	0.840
		योग . .	1.000	0.840
9	जगदीश पिता मांगीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भू-स्वामी.	97/2	1.012	0.752
		योग . .	1.012	0.752
10	इन्द्रपालसिंह पिता रघुवीरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-सवमी.	94	0.139	0.139
		97/3/1	0.960	0.770
		योग . .	1.099	0.909
11	अमरसिंह पिता देवीसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी.	97/4	1.000	0.150
		252/1	0.036	0.036
		योग . .	1.036	0.186
12	तंवरलाल पिता भंवरलाल जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी.	98	0.152	0.152
		106/1	0.061	0.061
		178	0.228	0.228
		योग . .	0.441	0.441
13	चन्दुबाई, जतूबाई, नानीबाई माता समरीबाई जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी.	105/1	0.069	0.069
		योग . .	0.069	0.069

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	हेमसिंह पिता जगन्नाथसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी.	125/1 358 376/2	0.095 0.683 0.125	0.095 0.683 0.125
		योग . .	0.903	0.903
15	तंवरलाल पिता रघुवीरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी.	97/7 133/1 136/1 137 138 142/1 253	1.462 0.218 0.063 0.152 0.253 0.184 0.114	1.462 0.218 0.063 0.152 0.253 0.184 0.114
		योग . .	2.446	2.446
16	मेहरबानसिंह, सुरेन्द्रसिंह पिता सुल्तानसिंह मु. प्रेम कुवंर पिता सुल्तानसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी.	81/2/1 92/3 140 147	0.700 0.051 0.152 0.063	0.300 0.051 0.152 0.063
		योग . .	0.966	0.566
17	गोविन्दसिंह पिता नरभेसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी.	153/1 162/1	0.007 0.045	0.007 0.045
		योग . .	0.052	0.052
18	भगवानसिंह पिता हिन्दूसिंह जाति राजपूति नि. ग्राम भू-स्वामी.	81/3/1/1/1 157/1 190/1/1	0.629 0.175 0.076	0.529 0.175 0.076
		योग . .	0.880	0.780
19	कृष्णपालसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूति नि. ग्राम भू-स्वामी.	96/1/1 181/1/1 212/2	0.379 0.055 0.126	0.180 0.055 0.126
		योग . .	0.560	0.361
20	नंदकिशोर, रामप्रसाद पिता चिमना, पप्पू मांगीलाल पिता रामबगस मु. केशरबाई विधवा रामबगस जाति नाई नि. ग्राम कचनारिया.	176 275	0.190 0.126	0.190 0.126
		योग . .	0.316	0.316
21	सुरेन्द्रसिंह पिता रघुवीरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी.	180 187/1 97/5/1	0.139 0.031 0.900	0.139 0.031 0.650
		योग . .	1.070	0.820

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
22	विक्रमसिंह पिता किशनसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	185/1/1	0.019	0.019
	योग	1	0.019	0.019
23	मनोहरसिंह पिता किशनसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	185/2 80/2	0.051 0.373	0.051 0.080
	योग	2	0.424	0.131
24	जगदीश पिता मदन जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भू-स्वामी	188/1 381/403/1	0.038 0.196	0.038 0.196
	योग	2	0.234	0.234
25	रामप्रसाद, मेहताबाबाई, गीताबाई पिता धूलजी जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भू-स्वामी	188/2 381/403/2	0.038 0.196	0.038 0.196
	योग	2	0.234	0.234
26	भारतसिंह पिता हिन्दूसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	190/1/2 81/3/1/1/2	0.076 0.628	0.076 0.608
	योग	2	0.704	0.684
27	संतोषकुंवर पति श्री कैलाशसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	190/2	0.152	0.152
	योग	1	0.152	0.152
28	चतरभानसिंह पिता रघुवीरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	192/1 97/6	0.141 1.000	0.141 1.000
	योग	2	1.141	1.141
29	विष्णुकुंवर विधवा प्रभुनाथसिंह, गेंदकुंवर पुत्री प्रभुनाथसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	209/1/1/1	0.202	0.202
	योग	1	0.202	0.202
30	जगदीशसिंह पिता तखतसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	209/2 240	0.011 0.101	0.011 0.101
	योग	2	0.112	0.112
31	तंवरलाल, चतरभानसिंह, इन्द्रपालसिंह, सुरेन्द्रसिंह पिता रघुवीरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	92/1 92/2 210 218 221 388	0.063 0.021 0.126 0.101 0.038 0.164	0.063 0.021 0.126 0.101 0.038 0.164
	योग	6	0.513	0.513

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
32	तंवरसिंह, चतरभानसिंह, इन्द्रपालसिंह, सुरेन्द्रसिंह पिता रघुवीरसिंह, सरेकुंवर विधवा रघुवीरसिंह हि.65 पै. चन्दरसिंह, अनारसिंह, गुलाबसिंह पिता गोपालसिंह मु. रतनकुंवर विधवा गोपालसिंह हि. 35 पै.जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	215	0.202 *	0.100
	योग	1	0.202	0.100
33	उमराव, नंदराम पिता गोपीलाल, हरी, इन्दर पिता कनीराम जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	217	0.253	0.133
	योग	1	0.253	0.133
34	हजारी, चन्दर पिता बाबरू जाति बेलदार नि.ग्राम भू-स्वामी	222	0.177	0.025
	योग	1	0.177	0.025
35	होकमसिंह, ज्ञानसिंह, अजयसिंह, नन्दलाल पिता लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	274/3	0.025	0.025
	योग	1	0.025	0.025
36	मांग्या, रतन पिता भंवरिया मु. रमकूबाई पिता भंवरिया जाति बेलदार नि.ग्राम भू-स्वामी	236	0.126	0.050
	योग	1	0.126	0.050
37	दुलेसिंह पिता विजयसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	238	0.177	0.177
	योग	1	0.177	0.177
38	कुमेरसिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	239	0.038	0.038
	योग	1	0.038	0.038
39	भंवरलाल पिता कनीराम जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी	242/1 245/1 246/1	0.063 0.025 0.089	0.063 0.025 0.089
	योग	3	0.177	0.177
40	देऊ उर्फ देवबाई पति अमरसिंह उर्फ अमरा जाति चमार नि.ग्राम रायपुरिया	242/2 245/2 246/2	0.063 0.026 0.088	0.063 0.026 0.088
	योग	3	0.177	0.177
41	सौरमबाई, चंदाबाई पिता नारायणसिंह, प्रेमसिंह, भीकमसिंह, मेहताबसिंह, शिवसिंह पिता उम्मेदसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	243 244 315 317/1 342 339	0.139 0.304 0.063 1.333 1.126 0.101	0.139 0.304 0.063 1.333 1.126 0.101
	योग	6	3.066	3.066

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
42	शम्भूसिंह पिता केशरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	248 81/1	0.051 0.163	0.051 0.040
	योग	2	0.214	0.091
43	बलरामसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	96/1/3 175/1/1 250 254/3	0.380 0.026 0.038 0.055	0.100 0.026 0.038 0.055
	योग	4	0.499	0.219
44	तंवरलाल, कृष्णपालसिंह, हरिसिंह, बलरामसिंह पिता भंवरलाल, ईश्वरसिंह, शैलेन्द्रसिंह पिता कालूसिंह, मेहरबानसिंह पिता हनुमन्तसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	251 255 211	0.190 0.025 0.278	0.190 0.025 0.278
	योग	3	0.493	0.493
45	भारतसिंह पिता सजनसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	258/1 309/2/2 341/1/1 310/2/2 353/1 316/401/1/1 311/2/2 312/2	0.013 0.127 0.155 0.274 0.222 0.196 0.097 0.152	0.013 0.127 0.155 0.274 0.222 0.196 0.097 0.152
	योग	8	1.236	1.236
46	हरीनारायण पिता शेतानसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	258/2 261 308 345/1 356/2 309/1 310/1 311/1 316/401/1/2	0.015 0.126 0.101 0.298 0.487 0.253 0.274 0.097 0.196	0.015 0.126 0.101 0.298 0.487 0.253 0.274 0.097 0.196
	योग	9	1.847	1.847
47	कृष्णपालसिंह पिता रामनाथसिंह, भेरूसिंह ना.बा. पिता पदमसिंह सर.माता केदारबाई मु. केदारबाई विधवा पदमसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	259/1 265 266 277/2 354/1	0.025 0.202 0.063 0.076 0.107	0.025 0.202 0.063 0.076 0.107
	योग	5	0.473	0.473

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
48	ममता कुंवर पति धर्मेन्द्रसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	262 263 362/1	0.051 0.076 0.639	0.051 0.076 0.519
	योग	3	0.766	0.646
49	धर्मेन्द्रसिंह पिता प्रहलादसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	264 313 343/2/1 344/1 350/2/1 355/2 356/1 345/2 391/1/4	0.025 0.607 0.046 0.360 0.113 0.297 0.487 0.297 3.794	0.025 0.517 0.046 0.360 0.113 0.297 0.487 0.297 0.260
	योग	9	6.026	2.402
50	मोतीसिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	268/1	0.120	0.120
	योग	1	0.120	0.120
51	दिलीपसिंह पिता अर्जुनसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	268/2 269	0.108 0.013	0.108 0.013
	योग	2	0.121	0.121
52	भंवरलाल, साखनसिंह, बृजसिंह, किशोरसिंह पिता बनेसिंह मु. चतरकुंवर पति बनेसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	270 349 350/1	0.392 0.342 0.187	0.392 0.342 0.075
	योग	3	0.921	0.809
53	शिवराजसिंह, रघुनंदनसिंह पिता गोविन्दसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	271 279 336/1/1 386 366/1 340	0.240 0.278 0.144 0.051 0.415 0.519	0.240 0.278 0.144 0.051 0.415 0.519
	योग	6	1.647	1.647
54	दीगपालसिंह, कमलेश, बिन्दू, मंजू पिता भगवानसिंह मु. दीपकुंवर बेवा भगवानसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	382 383/1/3 400/2/2	0.622 0.570 0.257	0.622 0.290 0.100
	योग	3	1.449	1.012

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
55	शिवराजसिंह, रघुनंदनसिंह, गोवर्धनसिंह, प्रेमसिंह, गजराजसिंह, सरदारसिंह, भगवानसिंह, विजयसिंह, पिता डूंगरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	274/2	0.013	0.013
	योग	1	0.013	0.013
56	रतनसिंह पिता चांदसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	276 277/1 354/2 361/2 370/1 375	0.038 0.126 0.108 0.506 0.001 0.139	0.038 0.126 0.108 0.506 0.001 0.139
	योग	6	0.918	0.918
57	कृष्णपालसिंह दत्तक पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	278 377/13/1	0.101 2.277	0.101 0.300
	योग	2	2.378	0.401
58	भंवरलाल पिता शंभूसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	280/1 357/1 74/2 95/1 3/2/1	0.127 0.683 0.126 0.089 0.645	0.050 0.683 0.126 0.089 0.645
	योग	5	1.670	1.593
59	बलरामसिंह पिता नन्नूसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	285/1 327 346/1 360/1	0.038 0.063 0.152 0.727	0.038 0.063 0.152 0.130
	योग	4	0.980	0.383
60	राजेन्द्रसिंह पिता नन्नूसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	285/2 346/2 360/2	0.038 0.152 0.728	0.038 0.152 0.728
	योग	3	0.918	0.918
61	किशोरसिंह पिता नन्नूसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	285/4	0.038	0.038
	योग	1	0.038	0.038
62	होकमसिंह, दीपसिंह पिता प्रभुनाथसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	285/3	0.038	0.038
	योग	1	0.038	0.038

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
63	कैलाशसिंह पिता सजनसिंह, मु. रेशमकुंवर विधवा सजनसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	287 309/2/1 341/2 310/2/1 343/1/2/1 311/2/1 353/2 312/1	0.152 0.126 0.222 0.274 0.139 0.097 0.221 0.152	0.076 0.126 0.222 0.274 0.139 0.097 0.221 0.152
	योग	8	1.383	1.307
64	गजराजसिंह पिता डूंगरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	387 390 389/1 288	0.481 0.063 2.654 0.126	0.481 0.063 1.990 0.066
	योग	4	3.324	2.600
65	विजेन्द्रसिंह, गायत्री बाई, ममता बाई पिता प्रतापसिंह मु. मुनी बाई विधवा प्रतापसिंह, अर्जुनसिंह, मोहनसिंह, उदयसिंह पिता अचलसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	314	0.746	0.746
	योग	1	0.746	0.746
66	पेपकुंवर पति हरिनारायणसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	347 348	0.455 0.708	0.455 0.708
	योग	2	1.163	1.163
67	रतनसिंह, जगदीश ना.बो. रामपाल ना.बा. श्याम कुंवर बैवा बहादुरसिंह सर. माता जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी	352/2 80/1	0.587 0.373	0.587 0.090
	योग	2	0.960	0.677
68	मानसिंह पिता मदनसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	355/1 367/1	0.094 0.063	0.094 0.063
	योग	2	0.157	0.157
69	लाड़ कुंवर विधवा प्रभुनाथसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भू-स्वामी	357/2/1	0.253	0.253
	योग	1	0.253	0.253
70	सरकुंवर पति किशोरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	357/2/2 362/2/2	0.253 0.319	0.253 0.319
	योग	2	0.572	0.572
71	प्रेमकुंवर पति हरिनारायण जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	359	1.733	1.233
	योग	1	1.733	1.233

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
72	भेरूसिंह पिता पदमसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	361/1/1	0.322	0.322
		385	0.139	0.139
	योग	2	0.461	0.461
73	सुधाकुंवर पति भंवरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	361/1/2	0.323	0.323
	योग	1	0.323	0.323
74	भंवरलाल, दीपसिंह पिता प्रभुनाथसिंह मु. लाडकुंवर विधवा प्रभुनाथसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	362/2/1	0.320	0.320
	योग	1	0.320	0.320
75	ज्ञानसिंह पिता रूगनाथसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	377/10/1	2.024	2.024
	योग	1	2.024	2.024
76	जसवंतसिंह पिता बलरामसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भू-स्वामी	377/16/1	1.618	0.923
	योग	1	1.618	0.923
77	कृष्णपालसिंह पिता रामनाथसिंह, पदमसिंह पिता चांदसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	378/1/1	1.618	1.618
	योग	1	1.618	1.618
78	रामप्रसाद पिता बनिया जाति बेलदार नि.ग्राम भू-स्वामी	378/2/1/1	0.304	0.304
		400/1/1	0.632	0.482
	योग	2	0.936	0.786
79	मुकेश पिता दुलीचंद जाति बेलदार नि.ग्राम भू-स्वामी	378/2/2	0.203	0.203
		400/1/2	0.266	0.236
	योग	2	0.469	0.439
80	ईश्वर पिता दुलीचंद जाति बेलदार नि.ग्राम भू-स्वामी	378/2/3	0.203	0.203
		400/1/3	0.266	0.266
	योग	2	0.469	0.469
81	सुगनबाई विधवा दुलीचंद जाति बेलदार नि.ग्राम भू-स्वामी	378/2/4	0.100	0.100
		400/1/4	0.101	0.101
	योग	2	0.201	0.201

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
82	विपिनकुमार पिता जगदीशसिंह जाति राजपूत नि. भोपाल भू-स्वामी	376/1/1	0.762	0.762
	योग	1	0.762	0.762
83	संतोषकुंवर बेवा भोनीसिंह, रति, पप्पू उर्फ अरुण ना. बा. पिता भोनीसिंह सर. माता संतोषकुंवर बेवा भोनीसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	209/1/1/2	0.203	0.203
	योग	1	0.203	0.203
84	उदयसिंह पिता रूपसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	3/3 81/4 151/3	1.512 0.506 0.051	0.070 0.130 0.051
	योग	3	2.069	0.251
85	कृष्णाकुंवर पति सुमेरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	78/2	0.173	0.173
	योग	1	0.173	0.173
86	नंदकुंवर पिता हिन्दुसिंह, शंभूकुंवर पिता हिन्दुसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	67 69	0.253 0.215	0.173 0.215
	योग	2	0.468	0.388
87	फुलकुंवर पति मेहरबानसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	78/1	0.173	0.173
	योग	1	0.173	0.173
88	बापू पिता भंवरिया जाति बेलदार नि.ग्राम भू-स्वामी	377/12/1	1.326	0.140
	योग	1	1.326	0.140
89	भंवरलाल, शिवदयालसिंह पिता गोविन्दसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	79	0.316	0.316
	योग	1	0.316	0.316
90	भंवरलाल पिता रूपसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	155/1 3/4	0.003 1.272	0.003 0.600
	योग	2	1.275	0.603
91	भीमसिंह पिता रूपसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	81/5	0.500	0.250
	योग	1	0.500	0.250

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
92	मोहनसिंह, रामसिंह, कैलाश पिता मथरालाल मु. नानी बाई विधवा मथरालाल जाति बेलदार नि.ग्राम भू-स्वामी	377/1/1	0.627	0.260
	योग	1	0.627	0.260
93	रामकुंवर पति उदयसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	78/3	0.173	0.173
	योग	1	0.173	0.173
94	हरीसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	112/1	0.069	0.069
	योग	1	0.069	0.069
95	भूराकुंवर बेवा सरदारसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	352/1 363 381/2/1 383/1/2	0.248 0.506 0.678 0.570	0.248 0.506 0.678 0.290
	योग	4	2.002	1.722
96	श्रीराम मंदिर ठाकुरजी महाराज (व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय राजगढ़)	179 241 247 325 326	0.126 0.164 0.139 0.063 0.519	0.126 0.164 0.139 0.063 0.519
	योग	5	1.011	1.011
97	हरिसिंह पिता भंवरिया जाति बेलदार नि.ग्राम भू-स्वामी	377/12/2	1.326	0.090
	योग	1	1.326	0.090
98	धनसिंह पिता जगदीशसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम मोहनपुरा भू-स्वामी	73 96/1/2 65/2	0.114 0.380 1.568	0.114 0.100 0.100
	योग	3	2.062	0.314
99	शिवराजसिंह, रघुनंदनसिंह पिता गोविन्दसिंह, प्रेमसिंह, सरदारसिंह, भगवानसिंह, पिता डूंगरसिंह हि. 80 पै. गजराजसिंह पिता डूंगरसिंह हि. 15 पै. बहादुरसिंह पिता नरभेसिंह हि. 05 पै. जाति राजपूत नि.ग्राम भू-स्वामी	274/1	0.228	0.228
	योग	1	0.228	0.228

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
100	मन्दिर श्री माता जी महा. (व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय राजगढ़)	282	0.506	0.050
	योग	1	0.506	0.050
101	मांगीलाल पिता हीरालाल, रायसिंह पिता हीरालाल, लीला बाई पति नारायणसिंह जाति बेलदार नि.ग्राम भू-स्वामी	230/5	1.265	0.100
	योग	1	1.265	0.100
	कुलयोग :-	264	83.276	59.579

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरुण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कुलाधिपति, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश

आदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2017

क्र. एफ-1-2-17-रा.स.-यू.ए.-1-259.—यतः, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्र. 20 सन् 1991) की धारा 33-ख की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ-52-02-2016-अड़तीस-3, दिनांक 18 मार्च 2017 जारी की है, जो दिनांक 18 मार्च 2017 से प्रभावशील की गई है।

2. अतः, मैं, ओम प्रकाश कोहली, कुलाधिपति, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की धारा 33-ख की उपधारा (3) के प्रथम परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन से परामर्श करने के उपरान्त डॉ. रवीन्द्र आर. कान्हेरे, परीक्षा नियंत्रक, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर (म. प्र.) को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, के लिए उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त करता हूँ।

3. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1ए के अनुसार शासित होंगी।

ओम प्रकाश कोहली, कुलाधिपति.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 9 मार्च 2017

क्र. 02-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छतरपुर	गौरिहार	फत्तेपुर	1.014	भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर
				केन नदी के ओवर फ्लोनाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग.

(2) भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश भण्डारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 20 दिसम्बर 2016

क्र. 661-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सतना	उचेहरा	डुडही	0.655	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-7 सतना (म. प्र.).
				नागौद सतना शाखा नहर के चकहटा माइनर से डुडही सब-माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 10 मार्च 2017

क्र. 124-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	बारी	0.117	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सतना, (म. प्र.).	ओबरी खोखम से बारी जक्शन राष्ट्रीय राजमार्ग 7 तक मार्ग का उन्नयन कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 125-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	सेमरी	0.761	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सतना, (म. प्र.).	ओबरी खोखम से बारी जक्शन राष्ट्रीय राजमार्ग 7 तक मार्ग का उन्नयन कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 126-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों

को इस आशय की सूचना दी जाती है। मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुरबाघेलान	खोखम	0.128	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सतना, (म. प्र.).	ओबरी खोखम से बारी जक्शन राष्ट्रीय राजमार्ग 7 तक मार्ग का उन्नयन कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 127-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुरबाघेलान	खुखडा उन्मूलन	0.497	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सतना, (म. प्र.).	ओबरी खोखम से बारी जक्शन राष्ट्रीय राजमार्ग 7 तक मार्ग का उन्नयन कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 128-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	बांधीमौहर	9.294	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 सतना (म. प्र.).	नागौद सतना शाखा नहर के महदेई वितरिका निर्माण हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 129-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उंचेहरा	गोबरांवकला	19.039	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 सतना, (म. प्र.).	नागौद सतना शाखा नहर के महदेई वितरिका निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 15 मार्च 2017

प्र. क्र. 124-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	हरवंशपुरा	निजी भूमि रकबा 1.73 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 16.88 है. कुल रकबा 18.61 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	उमही नाला तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 125-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है.

कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	खमतरा	निजी भूमि रकबा 1.51 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.08 है. <u>कुल रकबा 1.59 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	उमही नाला तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 217-अ-82-वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	रैपुरा	रूपझिर	निजी भूमि रकबा 3.90 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.42 है. <u>कुल रकबा 4.32 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पटपरा नाला तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. आईरीन सिंथिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 15 मार्च 2017

क्र. 95-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची

के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ.

चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	बजरा-50	1.237	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रीवा.	रीवा जिले के रायपुर मोड से बसहट मार्ग में बेलन नदी (गंथाघाट) पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 96-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ.

चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	गंथा	0.141	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रीवा.	रीवा जिले के रायपुर मोड से बसहट मार्ग में बेलन नदी (गंथाघाट) पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 98-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, ललितपुर- खजुराहो-सतना-रीवा-सिंहरौली नई बी.जी. रेल लाइन परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भूमि के अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भूमि के अर्जन की कार्यवाही वांछित है इसी कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	बासा-30	6.811	उपमुख्य अभियन्ता निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	ललितपुर-खजुराहो-सतना-रीवा-सिंहरौली नई बी. जी. रेल लाइन की निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के भू-अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में, किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 100-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, ललितपुर- खजुराहो-सतना-रीवा-सिंहरौली नई बी.जी. रेल लाइन परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भूमि के अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भूमि के अर्जन की कार्यवाही वांछित है इसी कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	मड़वा-493	28.399	उपमुख्य अभियन्ता निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	ललितपुर-खजुराहो-सतना-रीवा-सिंहरौली नई बी. जी. रेल लाइन की निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के भू-अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में, किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 3 मार्च 2017

प्र. क्र. 087-अ-82-वर्ष 2015-16.— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की, कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—देवेन्द्रनगर

(ग) ग्राम—बड़ौरा, प.ह.नं. 019

(घ) लगभग क्षेत्रफल—16.282 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
102	0.030	निजी भूमि
103	0.950	निजी भूमि
104/1	0.580	निजी भूमि
93	0.364	निजी भूमि
94	0.620	निजी भूमि
95	0.070	निजी भूमि
63/1	0.206	निजी भूमि
63/2	0.207	निजी भूमि
63/3	0.180	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
63/4	0.440	निजी भूमि
64/1/क	0.712	निजी भूमि
64/2/1/घ	1.068	निजी भूमि
64/2/ख/1	0.220	निजी भूमि
64/2/ख/2	0.270	निजी भूमि
65/2/ख	0.290	निजी भूमि
65/2/1/क	0.300	निजी भूमि
67/1/3	0.459	निजी भूमि
191/1/1/1/2	0.060	निजी भूमि
67/1/ख	0.710	निजी भूमि
67/2/ख/1	0.079	निजी भूमि
67/2/ख/2/1	0.420	निजी भूमि
67/2/ख/2/2	0.040	निजी भूमि
67/2/ख/2/3	0.030	निजी भूमि
67/2/ख/2/4	0.050	निजी भूमि
69/1/1	0.197	निजी भूमि
80/1	0.036	निजी भूमि
69/1/2	0.300	निजी भूमि
69/1/3	0.270	निजी भूमि
69/2	0.040	निजी भूमि
80/2	0.017	निजी भूमि
79/1/2	0.530	निजी भूमि
79/1/3	0.530	निजी भूमि
79/1/1	0.530	निजी भूमि
90/1	0.093	निजी भूमि
79/1/मिन/1/1	0.180	निजी भूमि
90/1/3	0.040	निजी भूमि
87	0.260	निजी भूमि
89	0.020	निजी भूमि
64/4/1/क/1/1/1/1/1/1/1/2	0.011	निजी भूमि
64/4/1/क/1/1/1/1/1/2	0.009	निजी भूमि
64/4/1/क/1/1/1/1/1/2	0.008	निजी भूमि
64/4/1/क/1/1/1/2	0.032	निजी भूमि
64/4/1/क/1/1/1/3	0.011	निजी भूमि
64/4/1/क/1/1/1/4	0.005	निजी भूमि
64/4/1/क/1/1/1/5	0.008	निजी भूमि
64/4/1/क/1/1/2	0.004	निजी भूमि
64/4/1/क/1/2	0.013	निजी भूमि
64/4/1/क/1/4	0.016	निजी भूमि
64/4/1/क/2	0.011	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
191/1/क/1/1	0.170	निजी भूमि
191/1/ख	0.007	निजी भूमि
191/2	0.120	निजी भूमि
101/2	0.005	निजी भूमि
101/3	0.004	निजी भूमि
101/4	0.018	निजी भूमि
101/5	0.007	निजी भूमि
101/6	0.001	निजी भूमि
101/7	0.004	निजी भूमि
189/2/3/मिन-1	0.069	निजी भूमि
189/2/3/मिन-2	0.022	निजी भूमि
189/2/2/2	0.023	निजी भूमि
189/2/1/2/2	0.010	निजी भूमि
197/1	0.010	निजी भूमि
195/मिन-4	0.440	निजी भूमि
195/1/ग	0.440	निजी भूमि
195/1/ख/1	0.100	निजी भूमि
195/मिन/3/1क	0.160	निजी भूमि
86/2/मिन-2	0.252	निजी भूमि
86/2/मिन-3	0.120	निजी भूमि
86/2/मिन-4	0.283	निजी भूमि
86/1	0.070	निजी भूमि
81/1	0.140	निजी भूमि
81/2/क	0.130	निजी भूमि
81/3/ख	0.151	निजी भूमि
81/2/ख	0.107	निजी भूमि
81/2/घ	0.097	निजी भूमि
81/3/क	0.261	निजी भूमि
81/3/ग	0.020	निजी भूमि
81/4	0.020	निजी भूमि
91/1/1	0.560	निजी भूमि
91/1/2	0.040	निजी भूमि
92	0.072	निजी भूमि
196	0.010	निजी भूमि
79/1/मिन/1/2	0.090	निजी भूमि
64/1/क/मिन-1	0.120	निजी भूमि
189/1/1	0.030	निजी भूमि
190	0.081	निजी भूमि
198/1	0.010	निजी भूमि
64/3/क/मिन-1	0.482	निजी भूमि
कुल रकबा . .	16.282	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541-कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 088-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की, कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम—जमीनप्रताप सिंह, प.ह.नं. 028
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.060 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
224	0.090	निजी भूमि
223	0.750	निजी भूमि
265/2	0.330	निजी भूमि
266/9	0.160	निजी भूमि
266/2	0.160	निजी भूमि
266/3	0.170	निजी भूमि
268	0.140	निजी भूमि
267	0.020	निजी भूमि
216	0.330	निजी भूमि
308	0.240	निजी भूमि
305	0.200	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
309	0.020	निजी भूमि
307/1	0.070	निजी भूमि
307/2	0.020	निजी भूमि
315/1	0.090	निजी भूमि
316/1	0.260	निजी भूमि
316/2	0.070	निजी भूमि
317	0.110	निजी भूमि
318	0.400	निजी भूमि
319	0.570	निजी भूमि
320	0.200	निजी भूमि
321	0.260	निजी भूमि
322	1.120	निजी भूमि
323/8	0.090	निजी भूमि
323/1	0.050	निजी भूमि
323/2	0.050	निजी भूमि
323/3	0.050	निजी भूमि
324	0.010	निजी भूमि
214	0.020	निजी भूमि
215	0.010	निजी भूमि
कुल रकबा . . .	<u>6.060</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541-कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. आईरीन सिंथिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 10 मार्च 2017

क्र. 2245-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—पाण्डुर्णा
(ग) नगर/ग्राम—मरकावाडा उर्फ नजरपुरैयत, ब. न.—21, प. ह. नं.—1, रा. नि. मं.—नांदनवाड़ी.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—01.940 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
31	0.065
33/1	01.123
33/3	0.542
33/4	0.210

कुल योग . . . 01.940 हेक्टेयर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—जामलापानी जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पाण्डुर्णा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग पाण्डुर्णा, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 2246-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—पाण्डुर्णा
(ग) नगर/ग्राम—सेन्दुरजना, ब. न.—405,
प. ह. नं.—21, रा. नि. मं.—नांदनवाड़ी.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—09.403 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
15/3	01.000
15/1	0.124
22/3	01.100
19/3	0.204
15/2	0.861
19/1	0.303
15/4	0.550
17	0.271
14	0.061
20	0.113
22/1	01.094
19/2	0.202
22/2	01.315
4/9	0.135
12/2	0.081
4/3	0.550
4/10	0.471
5	0.320
12/3	0.144
13	0.504

कुल योग . . . 09.403 हेक्टेयर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सेन्दुरजना जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पाण्डुर्णा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 2247-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—पाण्डुर्णा
(ग) नगर/ग्राम—जामलापानी, ब. न.—152,
प. ह. नं.—1, रा. नि. मं.—नांदनवाड़ी.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—05.231 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
39	1.121
123	0.210

(1)	(2)
117/1	0.809
117/2	0.112
119/1	01.210
119/2	0.480
119/3	0.644
3/1	0.085
3/2	0.075
4	0.020
6/1	0.025
7/1	0.012
8/2	0.050
8/1	0.050
25	0.101
26/1	0.035
26/2	0.050
29	0.020
33	0.040
34	0.082
कुल योग . .	05.231 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—जामलापानी जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.	
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट http://www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.	
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पाण्डुर्णा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.	
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	

क्र. 2248-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—पाण्डुर्णा
(ग) नगर/ग्राम—पेंडोनी, ब. न.—243,
प. ह. नं.—43, रा. नि. मं.—पाण्डुर्णा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—22.721 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
269/1	0.975
269/2	01.417
269/3	0.974
269/4	0.405
270	0.450
272	0.202
305	0.405
273/1	0.503
273/6	0.503
273/2	02.181
273/3	0.405
290/3	0.809
292/4	0.405
273/4	0.110
273/5	01.214
275/1	0.607
276/3	0.405
275/2	0.202
275/4	0.202
275/3	01.012
276/4	0.770
276/1	0.101
282	0.269
276/2	0.545

(1)	(2)
290/1	0.365
290/2	0.100
290/4	01.910
291/1	0.870
291/2	0.486
292/2	0.809
292/3	0.460
292/5	0.141
294/2	0.150
304/1	01.150
304/2	0.350
295/4	0.809
26	0.050

कुल योग . . . 22.721 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंडोनी जलाशय के बांध निर्माण के लिये निजी भूमि हेतु अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पाण्डुर्णा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी,

जल संसाधन उपसंभाग पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गोहद, दिनांक 17 मार्च 2017

क्र. 04-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की, धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—भिण्ड
(ख) तहसील—गोहद
(ग) ग्राम—रामपुरा
(घ) क्षेत्रफल—0.015 हेक्टर.

सर्वे नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
550	0.015
योग . . .	0.015

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 5-एल माइनर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लॉन) का निरीक्षण न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गोहद में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इलैया राजा टी., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.